

प्रभाषित किया जाता है कि इस मापे पुस्तक
में मशीन के द्वारा गांकित कुल 100 एक से
पन्ने हैं यह मरम्मत श्री.....अधिकारी
सहायक अभियन्ता ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमण्डल.....२१५/ल.....को निर्गत
जाता है।

*कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, मध्यवर्ती
१४/०६/२०*

Schedule XLV- Form No.- 134.

DIVISION

SUB-DIVISION

MEASUREMENT BOOK

No. 2611

Name of officer

Date of first entry

Date of last entry

Name of the work-
 Situation of work-
 Agency by which work is executed-
 Date of measurement-
 No. and date of agreement-
(These four lines should be repeated at the commencement of
 the measurements relating to each work)

01

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
SH - MR-3054/FDR					
name of work :- temporary					
Restoration and motorable					
forest road Behta to Sathar					
East under F.D.R - 2021-22					
under Khajawali - Block					
Agency : - Departmental					
Authority : - E.G.R.W.D machhuria					
Date of Entry : - 09-12-2021					
item no. 1 : - providing and					
filling Brick bats in ditches					
including cost of brick					
Bats and labour all complete					
Job as per -- -- E12					
HT : -					
1'00 KM 1x8.50X2.50X0.20 = 4.25 M ³					
to 1.20 1x1.50X3.50X0.15 = 0.79 M ³					
1x9.10X3.70X0.10 = 3.36 M ³					
1x6.50X1.60X0.10 = 1.04 M ³					
1x1.50X1.50X0.15 = 0.34 M ³					
1x8.50X3.60X0.20 = 6.12 M ³					
1x15.50X3.40X0.275 = 3.95 M ³					
1x8.50X3.10X0.275 = 1.97 M ³					
1x2.10X3.75X0.15 = 1.18 M ³					
2x 2.50X1.20X0.10 = 0.30 M ³					
1x 8.50X2.40X0.10 = 1.56 M ³					

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
1 X 7. 50 X		2.30 X 0.075 =			1.121 m ³
1 X 2. 50 X 1.		50 X 0.15 =			0.45 m ³
1 X 7. 50 X		1.60 X 0.125 =			1.96 m ³
1 X 3. 50 X		2.10 X 0.125 =			6.92 m ³
1 X 15. 50 X 2.40 X		0.15 =			5.58 m ³
1 X 2. 80 X		0.90 X 0.115 =			0.378 m ³
1 X 6. 50 X 2.15 X 0.075 =					1.04 m ³
1 X 7. 50 X 2.50 X 0.075 =					1.41 m ³
1 X 5. 60 X 2.40 X 0.12 =					1.34 m ³
1 X 15. 60 X 3.80 X 0.10 =					5.92 m ³
					total = 44.95 m ³
					Waste
					08/12/21
					J.B.

(ABSTRACT OF POST)

Item no-① :- providing filling

Brickbats indicate -- a fall

Sty. ride T map- 02

$$0.7y = 44.95 \text{ m}^3$$

④ RG 2004.261m3 = RG 30123-

$$\text{Add } 125 \cdot 0.55T = R_B \quad 11055 = \infty$$

$$\text{Add } 1 \times 10^3 = R_8 \quad q_{21} =$$

Add S.Fee = Rs 463.92

Total = 93 106738

~~Q1~~ 08/12/21 08/12/21 08/12/21

Continuation